

विद्याभवन , बालिका विद्यापीठ , लक्खीसराय  
रूपम कुमारी 🍁 वर्ग-दशम् 🍁 विषय-हिन्दी.  
दिनांक- 30-7-20.

N.C.E.R.T syllabus

॥ अभ्यास-सामग्री ॥.

सुप्रभात बच्चों,

आज की कक्षा में हम वाक्य-परिवर्तन की  
पुनरावृत्ति करेंगे ।

एक वाक्य को दूसरे वाक्य में बदलना ही  
वाक्य-परिवर्तन कहलाता है ।

वाक्य परिवर्तन के प्रकार -.

- सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य
- सरल वाक्य से मिश्र वाक्य

- संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य
- संयुक्त से मिश्र वाक्य
- मिश्र से सरल वाक्य
- मिश्र से संयुक्त वाक्य.

यानि वाक्य -रूपांतरण के कुल छः चरण होते हैं ।.

अब परिवर्तन के उदाहरण को ध्यानपूर्वक देखें ।

सरल से संयुक्त

सरल वाक्य- बालक रो-रोकर चुप हो गया । इस वाक्य में हम देख रहे हैं कि वाक्य में एक ही मुख्य-क्रिया है- चुप हो गया और रो-रोकर पूर्व कालिक क्रिया है । अब हमें इसे संयुक्त वाक्य में बदलने के लिए

दो मुख्य क्रिया बनानी होगी और दो  
अलग-अलग वाक्य बनाकर उसे योजक  
शब्द से जोड़ना होगा । जैसे – बालक  
रोता रहा और चुप हो गया ।

एक और उदाहरण देखें -

मुझसे मिलने के लिए प्रतीक्षा करनी  
पड़ेगी ।

अब इसे संयुक्त में बदलेंगे -  
मुझसे मिल लेना परंतु प्रतीक्षा करनी  
पड़ेगी ।

अब सरल से मिश्र वाक्य.

एक उदाहरण देखें—

सरल वाक्य- धनी व्यक्ति हर चीज खरीद सकता है ।

अब इसे मिश्र वाक्य में ऐसे बनाएँगे -  
मिश्र वाक्य- जो व्यक्ति धनी है , वह हर चीज खरीद सकता है ।

सरल वाक्य को मिश्र में बदलते समय हमें इस बात का खयाल रखना होगा कि सरल वाक्य की जो मुख्य क्रिया है , उसे प्रधान उपवाक्य की क्रिया यानि यहाँ भी उसे मुख्य क्रिया बनानी है तथा सरल वाक्य में जो अन्य क्रिया हैं , उसे आश्रित उपवाक्य का हिस्सा बनाना है और उसमें कि, जो , जिसे , यदि , क्योंकि इत्यादि

लगाएँगे ( विशेष के लिए आश्रित

उपवाक्य के भेद को पढ़े )

एक और उदाहरण देखें-

सरल वाक्य- तुम गाड़ी के-स्थान-स्थान

पर चले जाओ ।

मिश्र वाक्य- तुम वहाँ चले जाओ , जहाँ

गाड़ी करती है ।

अब निम्नलिखित वाक्यों को सरल से

संयुक्त में बदलें -.

- वह जूते खरीदने के लिए बाजार गया ।
- सूर्योदय होने पर -पक्षी बोलने लगे ।
- रात को आकाश में तारों का मेला लग गया ।

